

# HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

Regd Off: Chl No. 350/2801, Motilal Nagar 2 Opp. Shankar Temple, Goregaon Mumbai 400062  
Maharashtra

CIN: L65993MH1980PLC353324, Ph. No.: 011-28744604

E-mail Id: [hillridgeinvest@gmail.com](mailto:hillridgeinvest@gmail.com), Website: [www.hillridgeinvestments.in](http://www.hillridgeinvestments.in)

Dated: 22.01.2021

To

The Head-Listing & Compliances

Metropolitan Stock Exchange of India Limited

Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,

Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400098

**Sub:- Filing of clipping of the Unaudited Financial Results published in the newspaper for the quarter and nine months ended on 31<sup>st</sup> December, 2020 as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Symbol-HILLRIDGE)**

Dear Sir,

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of News Papers- Dainik Mahalakshmi Bhagyodaya (Hindi News Paper) and Money Makers (English News Paper) dated **22<sup>nd</sup> January, 2021** in which Unaudited Financial Results of the Company has been published for the quarter and nine months ended on **31<sup>st</sup> December, 2020** as approved by the Board of Directors of the company in their meeting held on **21<sup>st</sup> January, 2021**.

You are requested to take on your records and acknowledge the same.

**For and on Behalf of  
Hillridge Investment Limited**

**Moni**  
**Managing Director**  
**DIN: 07827689**



Encl.: a/a

Corporate Office: R-815, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060



# First Tunneling Drive of Phase 4 Started at Vikaspuri

MM BUREAU

New Delhi/January 21 A major milestone in DMRC's Phase 4 work was achieved today as the first tunnel boring machine (TBM) of the phase started its drive to bore a 1.4 kilometre long tunnel from Vikaspuri to Krishna Park Extension on the Janakpuri West - R K Ashram Marg corridor in the presence of DMRC's Managing Director, Dr. Manoj Singh and other senior officials.

Two parallel circular tunnels for up and down movement will be constructed in this stretch which is a part of the 2.2 kilometre long underground section from Janakpuri West to Keshopur. The lowering and assembling process of this giant 73 metre long machine was started in



October last year. The tunneling has started from the Vikaspuri area in continuation of the Magenta line tunnel that has been already constructed for the presently operational Botanical Garden-Janakpuri

West corridor. The tunnel will be constructed approximately at a depth of 14 to 16 metres. About 2,040 concrete rings will be installed in these tunnels. Each tunnel will have an inner diameter of 5.8

metres. The entire tunneling work on this stretch is expected to be completed in about 12 months' time. The alignment of tunnel runs along the Outer ring road and below the multi-storied built up structures.



The tunnel will be built up with proven technology of EPBM (Earth pressure balancing method) with concrete lining made up of precast tunnel rings. The tunnel rings are being cast at the fully mechanized casting

yard setup at Mundla. These concrete segments are cured with steam curing system to achieve early strength. The TBM will be able to carry out tunneling up to 10 metres per day.

All necessary safety

Two parallel circular tunnels for up and down movement will be constructed on this stretch which is a part of the 2.2 kilometre long underground section from Janakpuri West to Keshopur. The lowering and assembling process of this giant 73 metre long machine was started in October last year.

precautions are being taken while constructing the tunnel below the built up structures by monitoring the ground movements with highly sensitive instruments fixed on the nearby structures. After completion of tunneling, this machine will be taken out from retrieval shaft being built with Krishna Park Extension underground station. As part of the Phase 4 work approved so far, about 27 kilometres of underground lines will be constructed.

A TBM is a machine used to excavate tunnels with a circular cross section through a variety of soil and rock

strata. They can be designed to bore through anything from hard rock to sand. TBMs have revolutionised the way tunnelling work is done all over the world as now tunnels can be bored without disturbing the buildings and other structures on the surface.

TBMs are especially useful for underground tunnelling work in congested urban areas. DMRC has been using TBMs for its tunnelling work since Phase 1. In Phase 2, when about 60 kilometres of underground sections were built, about 30 TBMs were pressed into service in the national capital.

Anuj Dayal  
anujdayal.dmr@gmail.com

## INA to become a major hub with RRTS, Metro stations

MM BUREAU

New Delhi/January 21 The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) will integrate its INA station on the Delhi-Awar Regional Rapid Transit System (RRTS) corridor with the Delhi Metro station at the same spot to provide seamless connectivity between two mass transit systems.

Last year, the NCRTC had identified location of its station on the RRTS corridor from Janakpuri to INA to provide seamless connectivity with the Delhi Metro station at the same spot to provide seamless connectivity between two mass transit systems.

An NCRTC spokesperson said, "Station locations have been finalised in such a way



that they are seamlessly integrated with other modes of public transport for commuters' convenience. INA RRTS station will be integrated with the Delhi Metro's INA station through subways, thereby providing safe and seamless connectivity between two rail corridors to commuters."

With this, INA will become an important transit

facility in South Delhi. The station will provide direct high-speed connectivity to residents of NCR suburbs such as Ghaziabad, Modinagar, Meerut, Gurugram, Manesar

and Panipat to two major hospitals (AIIMS and Safdarjung), markets and new developments planned in the area such as the commercial complex proposed at Narela Nagar. While the Delhi Metro station is located on Aurobindo Marg, INA RRTS station will be located near DDA headquarters on Barapullah road. NCRTC officials said the station will have two entry/exits near DDA headquarters, Vikas Sadan, and Aurobindo Marg.

"RRTS stations have been planned and designed to ensure multi-modal

integration with other modes of public transport in a way that it will eliminate the need for commuters to step out on roads for switching from one public transport to another. We are closely working with DMRC for an integration of the INA and other stations," the spokesperson said.

DMRC's INA station on the Yellow Line was opened in 2010 and subsequently was converted into an interchange with the Pink line in 2018. The station caters to a number of important landmarks in the area such as the INA Market and Dilli Haat. At

INA, the RRTS corridor, the NCRTC official said, will pass below the two existing DMRC corridors.

Anuj Dayal, executive director corporate communication, DMRC said, "NCRTC is going to integrate its upcoming station at INA with the Delhi Metro network's interchange station there through a subway. This will further boost the connectivity in the area and offer more travelling options to the passengers. The integration of the RRTS and RRTS networks in the NCR will be a major milestone."

## WPI demands JPC Probe in WhatsApp Chat Scandal

New Delhi/January 21

Welfare party of India expressed anger at the outrageous scandal involving national security and demanded a Joint Parliamentary Committee probe in the alleged WhatsApp chat. Dr. Biju Hiran National President, Welfare Party of India, expressed great concern over the allegedly leaked WhatsApp chat between Republic TV anchor and Editor in Chief Mr. Arun Goswami and Partha Dasgupta former CEO of Broadcast Audience Research Council (BARC) and said if proven, it will expose the unholy alliance between government agencies and the print media and the rate at which it has made inroads and added that the leaking of such vital and sensitive matter is extremely dangerous as it puts the entire nation's security at risk and called it shameful. Dr. Hiran said the alleged knowledge in advance on 23rd February 2019, of India's Air strikes at Balakot in Pakistan three days earlier for increase TBP and said if proved national security was grossly compromised which attracts punishment as serious as war against the nation (nation) and called it extremely disturbing and disgusting. Dr. Hiran said that in such a grave matter a Joint Parliamentary Committee probe should be held and all those who are involved in this heinous dealing should be brought to book stern action should be taken against them and be further added.

-welfarepartyindia@gmail.com

## Govt disburses Covid grant of ₹10K each to 407 more construction workers

MM BUREAU/New Delhi/January 21

Deputy chief minister Manish Sisodia said on Wednesday that the government has disbursed a Covid-19 relief grant of ₹10,000 each to 407 more construction workers in the national capital. These 407 construction workers had registered under the state's building and other construction workers welfare board till September 30, 2019. The amount disbursed to them is over and above a similar relief granted to 30,000 construction workers in the city, the government said in a statement. The



statement further said that at least 2,000 more construction workers will receive ₹10,000 each in the coming weeks. "When the lockdown was imposed due to the pandemic, the Delhi government was one of the first states to carry out relief disbursement. In all, 30,000 workers who were registered with the board, in compliance with orders of the Delhi high court, the board decided to disburse the relief amount to these construction workers who were registered with the board as on September 30, 2019," Sisodia said, before appealing to more construction workers to renew their membership. More than 93,000 construction workers are currently registered.

## Front line workers, elderly may have to wait two extra weeks to get Covid jobs

MM BUREAU/New Delhi/January 21

The law of turnout of health care workers in the ongoing Covid-19 containment drive in Delhi is likely to push the vaccine roll out schedule for front line workers and the elderly by at least two weeks, senior officials in the state government said on Wednesday. Since DMRC launched one of the largest immunisation campaigns to control the coronavirus disease on Saturday, Delhi has been able to vaccinate 12,853 health care workers so far. But this is just 48.72% against the Delhi government's target to vaccinate 26,378 health care workers in three days. Experts here said that if people remain hesitant to coming forward to taking mass shots, the government should consider opening up to allow other priority groups - and maybe even the general public - to take doses. Senior government officials said if current trends continue, then front line workers will not get their turn until March. As a result, immunisation of the general public, starting with people above the age of 50 years, can get pushed back to as late as mid-April. "The issue is being closely monitored by the state health department and the Union ministry of health and family welfare (MoHFW). As of now, an average 4,284 people are getting vaccinated for Covid-19 each day in the city. If the turnout does not improve soon and more centres are not opened, then it will take the entire month of February and the first week of March to complete just the first dose of vaccination for the 120,000 health care workers," said a senior government official involved in the immunisation programme. As per the initial plan of the Delhi government, the first batch of 120,000 registered health care workers were to be vaccinated by February 19. There are 81 centres in the city,

### GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED

Regd. Off: B-15 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110005  
Email: info@genesisdevelopers.com Website: www.genesisdevelopers.com  
Ph: 91-11-29745577 + 91-801055222

Unaudited Financial Result for the Quarter and Nine Months Ended 31.12.2020

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
1	Total Income from operations	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)
3	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional items)	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)
4	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional items)	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)
5	Total Comprehensive Income / Loss for the period (comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income/loss after tax)	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)	41.33	(0.00)
6	Paid up equity share capital	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Audited- Basic & Diluted	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)

Note: 1. The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 were reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 21st January 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial result are available on the company's website www.genesisdevelopers.com

For and on behalf of board of directors of

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED

Date: 21-01-2021

Place: New Delhi

SD/- DEEPAK TYAGI Managing Director DIN: 02702681

ABHIJIT TRADING CO LTD

Regd. Off: C-14 New Rajinder Nagar New Delhi-110005  
Email: info@abjitrading.com Website: www.abjitrading.com Ph: 011-29634787, 9891895232

Unaudited Financial Result for the Quarter and Nine Months Ended 31.12.2020

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
1	Total Income from operations	5.10	3.90	16.90	14.50	5.10	3.90
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	5.10	3.90	16.90	14.50	5.10	3.90
3	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional items)	5.10	3.90	16.90	14.50	5.10	3.90
4	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional items)	5.10	3.90	16.90	14.50	5.10	3.90
5	Total Comprehensive Income / Loss for the period (comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income/loss after tax)	5.10	3.90	16.90	14.50	5.10	3.90
6	Paid up equity share capital	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Audited- Basic & Diluted	0.35	0.27	1.30	0.74	0.35	0.27

Note: 1. The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 were reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 21st January 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial result are available on the company's website www.abjitrading.com

For and on behalf of board of directors of

ABHIJIT TRADING CO LTD

Date: 21-01-2021

Place: New Delhi

SD/- VIJAY KUMAR Managing Director DIN: 06032078

### HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off: C-14 New Rajinder Nagar New Delhi-110005  
Email: info@hillridgeinvestments.com Website: www.hillridgeinvestments.com Ph: 011-29744004

Unaudited Financial Result for the Quarter and Nine Months Ended 31.12.2020

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
1	Total Income from operations	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
3	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional items)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
4	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional items)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
5	Total Comprehensive Income / Loss for the period (comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income/loss after tax)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
6	Paid up equity share capital	802.90	802.90	802.90	802.90	802.90	802.90
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Audited- Basic & Diluted	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)

Note: 1. The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 were reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 21st January 2021 and approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on 21st January 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial result are available on the company's website www.hillridgeinvestments.com and also available on the website of NSE Limited at www.nseindia.com

For and on behalf of board of directors of

HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

Date: 21-01-2021

Place: New Delhi

SD/- MOHIT Managing Director DIN: 07827889

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED

Regd. Off: B-15 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI East Side 110005  
Email: info@alstonetextiles.com Website: www.alstonetextiles.com Ph: 011-29744161, 9643924389

Unaudited Financial Result for the Quarter and Nine Months Ended 31.12.2020

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
1	Total Income from operations	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
3	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional items)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
4	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional items)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
5	Total Comprehensive Income / Loss for the period (comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income/loss after tax)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)	1.24	(0.00)
6	Paid up equity share capital	1,274.80	1,274.80	1,274.80	1,274.80	1,274.80	1,274.80
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Audited- Basic & Diluted	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)

Note: 1. The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 were reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 21st January 2021 and approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on 21st January 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial result are available on the company's website www.alstonetextiles.com and also available on the website of NSE Limited at www.nseindia.com

For and on behalf of board of directors of

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED

Date: 21-01-2021

Place: New Delhi

SD/- DEEPAK KUMAR Managing Director DIN: 06032078



